

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

चर्चा में क्यों?

31 जुलाई, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूलों को 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' में परिवर्तित कर राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दशा में एक ठोस कदम उठाया है।

प्रमुख बटु

- मुख्यमंत्री के वज़िन के अनुसार लगभग पाँच हजार सरकारी स्कूलों को क्रमवार आधुनिक शिक्षा सुवधियों से लैस किया जाएगा। इसका प्रारंभिक उद्देश्य 2022-23 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत तक 80 ज़िलास्तर के उत्कृष्ट स्कूलों के लगभग दो लाख छात्रों को लाभ पहुँचाना है।
- सरकार का लक्ष्य सत्र 2022-23 शुरू होने से पहले 80 ज़िलास्तरिय उत्कृष्ट स्कूलों, 2023-24 के सत्र से पहले 329 ब्लॉक स्कूलों और 2024-25 के सत्र से पहले 4,000 से अधिक पंचायत स्तर के स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाना है।
- पहले चरण में राज्य के सभी ज़िलों के प्रस्तावित 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्ट स्कूल) में तबदील किया जा रहा है।
- इन स्कूलों का विकास नज़ी स्कूलों के मॉडल पर किया जा रहा है। ये सभी 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' विश्वस्तरिय शिक्षा प्रणाली से आच्छादित रहेंगे और नरिबाध बज़िली आपूर्ति, स्वच्छ वातावरण और स्मार्ट बोर्ड जैसी अन्य सुवधियों से सुसज्जित होंगे।
- पूरव में स्कूलों में साफ-सफाई और शौचालय की सुवधि नहीं होने के कारण लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर अधिक थी, जसि दूर करने के लिये सरकार ने सभी स्कूल परसिरो को लड़कियों और लड़कों दोनों के लिये अलग-अलग शौचालय सुवधि बहाल करने करने की योजना बनाई है।
- इन मॉडल स्कूलों में सीखने के परणामों में सुधार के लिये एक **समरपति भाषा प्रयोगशाला** स्थापति की जाएगी और इसका उपयोग समीक्षा तंत्र उपकरण के रूप में भी किया जाएगा।
- देश के प्रमुख संस्थानों की मदद से 'उत्कृष्ट स्कूल' में परतनियुक्त शिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्री-प्राइमरी स्तर से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस योजना से राज्यभर के लगभग 15 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।